

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

(22 से 29 अप्रैल)



घर में ही खुद को करें आइसोलेट COVID-19
दिशानिर्देशों का पालन कर रखें अपनों का ख्याल



गैर-ज़रूरी यात्रा
(Non-essential travel)
और स्थानीय
आवाजाही से बचें



2 METERS
6 FEET

**SOCIAL
DISTANCING**



गुटखा तंबाकू
न खाएं एवं
सड़क पर थूकें नहीं

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Tollfree No.: 1800-120-2929 Follow us on : [f](#) [t](#) [i](#) [y](#) @jharkhandDMA